





# एन्डोल संघनन अभिव्यक्ति

\*  $\alpha$ -Hydrogen चुक्ति


# यदि दी मिल्ने  $\alpha$ -H चुक्ति Ald./ketone अभिव्यक्ति हो तो उस अभिव्यक्ति का एन्डोल संघनन

कार्बो एन्डोल संघनन



# कैनिबारी अभिक्रिया


→  $\alpha$ -H नहीं हीना चाहिए -



# क्रांस कैनिबारी



1. ऐल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है  
The general formula of aldehyde and ketone is



- a.  $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$
- b.  $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$
- c.  $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{O}$
- d.  $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$

2. निम्नलिखित मे कौन ऐल्डहाइड और कीटोन मे विभेद कर सकता है ?

Who among the following can distinguish between aldehydes and ketones?

- a. फेहलिंग विलयन Fehling solution
- b. कॉस्टिक सोडा Caustic soda
- c. ग्रिनार्ड अभिकर्मक Grignard reagent
- d. इनमे से कोई नहीं none of these


3. निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है?

Canizarro reaction occurs with which of the following?

- a.  $\text{CH}_3\text{CHO}$
- b.  $\text{HCHO}$
- c.  $\text{HCOOH}$
- d.  $\text{CH}_3\text{COCH}_3$

4. कैल्शियम ऐसीटेट को गर्म करने से प्राप्त होता है  
.....is obtained by heating Calcium acetate

- a. एथिल ऐसीटेट ethyl acetate
- b. कैल्शियम फॉर्मेट calcium formate
- c. ऐसीटोन acetone
- d. ऐसीटलिहाइड Acetaldehyde



5. फॉर्मैल्डाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है?

40% aqueous solution of formaldehyde is called?

- a. फॉर्मेलिन
- b. ऐसीटिलीन
- c. ऐसिटीक अम्ल
- d. इनमे से सभी

6. फॉर्मेलिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है

When formaldehyde heated with NaOH, we get

- a. फॉर्मिक अम्ल (formic acid)
- b. एसीटोन (acetone)
- c. मैथिल ऐल्कोहॉल (methyl alcohol) 
- d. एथिल फॉर्मेट (ethyl formate)

7. फॉर्मैल्डिहाइड  $\text{CH}_3\text{MgBr}$  के साथ अभिक्रिया करके देता है Formaldehyde reacts with  $\text{CH}_3\text{MgBr}.....$

- a.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- b.  $\text{CH}_3\text{COOH}$
- c.  $\text{CH}_3\text{CHO}$
- d.  $\text{HCHO}$



8. IUPAC प्रणाली में ऐसीटोन का नाम है  
Name of acetone in IUPAC system.

- a. मेथेनल (methanal)
- b. एथेनल (ethanal)
- c. प्रोपेनोन (Propanone)
- d. एथानोन (Ethanone)

9. अभिकर्मक जो ऐल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, है

The reagent which reacts with both, aldehyde and ketone.

- a. टॉलेंस अभिकर्मक (Tollens reagent)
- b. फेहलिंग अभिकर्मक (Fehling solution)
- c. शिफ अभिकर्मक (Schieff base)
- d. ग्रिनार्ड अभिकर्मक (Grignard reagent)



10. निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है ?

Which of the following gives iodoform test?

- a.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- b.  $\text{CH}_3\text{OH}$
- c.  $\text{CH}_3\text{CHO}$
- d.  $\text{C}_2\text{H}_4$

11. निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से ऐसीटोन प्राप्त होता है?

- a.  $\text{CH}_3\text{CHO}$
- b.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- c.  $\text{CH}_3.\text{CHOH}.\text{CH}_3$
- d.  $\text{CH}_3\text{OH}$

12. निम्न मे से कौन-सी अभिक्रिया बेंजलिहाइड नहीं देता ?

Which of the following reaction does not give benzaldehyde?

- a. ऐल्डॉल संघनन (Aldol condensation)
- b. बेंजोइन संघनन (benzoin condensation)
- c. कैनिजारो अभिक्रिया (cannizzaro reaction)
- d. पर्किन अभिक्रिया (Perkin reaction)

13. टॉलेंस अभिकर्मक मे होते है  
.....is in Tollen's reagent.

- a.  $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$  ion
- b.  $\text{Cu}(\text{OH})_2$
- c.  $\text{Ag}_2\text{O}$
- d.  $\text{CuO}$

14. ऐसीटैल्डिहाइड को अमोनिया-मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर बनता है।

When acetaldehyde heated with ammonia mixed silver nitrate then .....forms.

- a. ऐसीटोन (acetone)
- b. सिल्वर ऐसीटेट (silver acetate)
- c. सिल्वर दर्पण (silver mirror)
- d. फॉर्मैल्डिहाइड (formaldehyde)

15. क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलूइन का बेंजेलिड्हाइड मे  
ऑक्सीकरण कहलाता है

the oxidation of toluene to benzaldehyde by  
chromyl chloride is called

- a. इटार्ड अभिक्रिया (Etard reaction)
- b. राइमर-टिमन अभिक्रिया (Riemer-Tiemann reaction)
- c. वुर्ट्ज अभिक्रिया (Wurtz reaction)
- d. कैनिजारो अभिक्रिया (Cannizzaro reaction)

16. कार्बोनिल यौगिक से HCN का योग उदाहरण है  
The addition of HCN to carbonyl compounds is  
an example of

- a. नाभिकस्नेही योग (nucleophilic addition)
- b. विद्युतस्नेही योग (electrophilic addition)
- c. मुक्त मूलक योग (free radical addition )
- d. इलेक्ट्रोमेरिक योग (electromeric addition)

17. वह अभिकर्मक जो ऐसीटोन एवं बेंजेल्डिहाइड , दोनो से क्रिया  
नहीं करता है, वह है

the reagent which does not react with both, acetone  
and benzaldehyde is...

- a. सोडियम हाइड्रोजनसल्फाइट (sodium hydrogensulphite)
- b. फेनिल हाइड्रोजाइन (phenyl hydrazine)
- c. फेह्लिंग विलयन (Fehling's solution)
- d. ग्रिनार्ड अभिकर्मक (Grignard reagent)

18. ऐसीटैल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर बनता है

When acetaldehyde reacts with chlorine .....forms.

- a. ऐसीटिल क्लोराइड (acetyl chloride)
- b. क्लोरल (chloride)
- c. डाइक्लोरोऐसीटिक अम्ल (dichloroacetic acid)
- d. इनमें से कोई नहीं (none of these)

19. ऐल्डिहाइड और कीटोन मे विभेद निम्नलिखित मे से किसके द्वारा किया जा सकता है ?


Who among the following can distinguish between aldehydes and ketones?

- a. सांद्र  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- b. हाइड्राजीन
- c. शिफ अभिकर्मक
- d. नाइट्रस अम्ल

20. कैल्शियम ऐसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है

When the mixture of calcium acetate and calcium formate is heated then.....forms.

- a. मेथेनॉल (methanol)
- b. एथेनॉल (ethanol)
- c. ऐसीटिक अम्ल (acetic acid)
- d. एथेनल (ethanal)



21. ऐल्डहाइड का क्रियाशील मूलक होता है  
The functional group of aldehydes is

- a. -CHO
- b. -CO-
- c. -O-
- d. -COOR

22. कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है  
The functional group of ketones is

- a. -CHO
- b. -CO-
- c. -O-
- d. -COOR

23. निम्न मे से कौन सा यौगिक  $\text{NaHSO}_3$  के साथ क्रिया नहीं करता है ?

which of the following compounds does not react with  $\text{NaHSO}_3$ ?

- a.  $\text{HCHO}$
- b.  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$
- c.  $\text{CH}_3\text{COCH}_3$
- d.  $\text{CH}_3\text{CHO}$

24. निम्न मे से कौन ऐल्डहाइड है

Which of the following is aldehyde?

- a.  $\text{CH}_3\text{OH}$
- b.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- c.  $\text{CH}_2\text{O}$
- d. इनमे से सभी

~~H.W~~

25. एथिल ऐल्कोहॉल के ऑक्सीकरण से बनता है  
Oxidation of ethyl alcohol gives
- a. फॉर्मेलिहाइड
  - b. ऐसीटिक अम्ल
  - c. फॉर्मिक अम्ल
  - d. मेथेनॉल

26. सोडियम ऐसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है-

What happens when sodium acetate heated with soda lime?

- a.  $\text{CH}_4$
- b.  $\text{C}_2\text{H}_6$
- c.  $\text{CH}_3\text{COOH}$
- d.  $\text{C}_2\text{H}_4$

27. फॉर्मिक अम्ल को अमोनिया-मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ गर्म करने पर बनता है-

On heating formic acid with ammonia-mixed silver nitrate solution, it is formed-

- a. लाल अवक्षेप
- b. सफेद अवक्षेप
- c. सिल्वर दर्पण
- d. इनमे से कोई नहीं

28. अमोनियम ऐसीटेट को ज्यादा गर्म करने पर प्राप्त होता है-

- a. यूरिया
- b. ऐसीटिक अम्ल
- c. ऐसीटैमाइड
- d. एथिलऐमीन

29. फॉर्मिक अम्ल एवं ऐसीटिक अम्ल मे विभेद करने के लिए किस अभिकर्मक का व्यवहार किया जा सकता है ?

Which reagent can be used to differentiate between formic acid and acetic acid?

- a.  $\text{PCl}_5$
- b. Na
- c. टॉलेंस अभिकर्मक
- d. प्रिन्ट्रार्ड अभिकर्मक

30. निम्न मे से कौन फेहलिंग विलयन को अवकृत नहीं करता ?

Which of the following does not reduce Fehling's solution?

- a. फॉर्मिक अम्ल
- b. ऐसीटिक अम्ल
- c. फॉर्मैलिड्हाइड
- d. ऐसीटैलिड्हाइड

31.  $C_2H_5CN$  के जल-अपघटन से प्राप्त होता है-  
Hydrolysis of  $C_2H_5CN$  gives

- a.  $C_2H_6$
- b.  $CH_3CH_2COOH$
- c.  $CH_3COOH$
- d.  $HCOOH$

32. कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है  
The functional group of carboxylic acid is

- a. -CHO
- b. -COOH
- c. -O-
- d. -COOR